

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

**अधिसूचना सं 55/2018 – केंद्रीय कर**

नई दिल्ली, तारीख 21 अक्टूबर, 2018

सा.का.नि. (अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 761(अ), तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं 34/2018-केंद्रीय कर, तारीख 10 अगस्त, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्,—

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

“परंतु सितम्बर, 2018 मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर 3 ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में, 25 अक्टूबर, 2018 को या उसके पहले दी जाएगी”।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी (पार्ट)]

(गुजन कुमार वर्मा)  
अवर सचिव, भारत सरकार

**टिप्पणि :** मूल अधिसूचना संख्यांक 34/2018 भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्यांक 761(अ), तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई और उसका भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 47/2018 सा.का.नि. संख्यांक 858(अ) तारीख 10 सितम्बर, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।